



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 27 नवम्बर, 2020  
अग्रहायण 6, 1942 शक सम्वत्

कार्यालय निदेशक, पंचायती राज,  
उत्तर प्रदेश

संख्या 4/817-2020-4-145(बलिया)-2014  
लखनऊ, 27 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-422

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2334/तैंतीस-1-94-149-94, दिनांक 9 मई, 1994 द्वारा संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 3 और 11(च) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ० प्र० को प्रतिनिहित शक्ति एवं ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या 1207/38-3-2000-34बी-2000, दिनांक 15 मार्च, 2000 द्वारा उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ० प्र० को प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, किंजल सिंह, निदेशक, पंचायती राज, उ० प्र०, लखनऊ, पंचायती राज अनुभाग-3, उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या 1992/33-3-2014-03रा०नि०आ०-2014, दिनांक 16 अगस्त, 2014 एवं शासनादेश संख्या 2491/33-3-2014-03रा०नि०आ०-2014, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 में दी गई व्यवस्थानुसार तथा आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ० प्र० के पत्र संख्या 4315/स्था-2(विविध पत्रावली)-2020, दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 के क्रम में जनपद बलिया की विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों की निर्गत अधिसूचना संख्या 4/58-2017-4-145(बलिया)-2014, दिनांक 3 मार्च, 2017 द्वारा विकास खण्ड भीमपुरा नं०-1, सीयर एवं नगरा की ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर संशोधित स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियाँ एतद्द्वारा स्थापित करती हूँ।

## सारिणी

## जनपद-बलिया

क्र० सं०	पूर्व स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	1	2	3	4
1	भीमपुरा नं० 1	चरौवा	1-चरौवा				
	भीमपुरा नं० 1		2-कल्यानपुर				
	भीमपुरा नं० 1		3-तिवारीपुर				
2	भीमपुरा नं० 1	विगह जमीन विगह	1-विगहजमीन विगह				
	भीमपुरा नं० 1		2-फत्तापुर				
3	भीमपुरा नं० 1	छिटिकियां	1-छिटिकियां				
	भीमपुरा नं० 1		2-शंकरपुर				
	भीमपुरा नं० 1		3-दरियापुर				
4	भीमपुरा नं० 1	फरदहां उर्फ पूरा	1-फरदहां उर्फ पूरा				
5	भीमपुरा नं० 1	पतोई	1-पतोई				
	भीमपुरा नं० 1		2-कलवारी				
6	भीमपुरा नं० 1	अहिरौली	1-अहिरौली				
	भीमपुरा नं० 1		2-विशुनपुर डण्डा				
7	भीमपुरा नं० 1	लोहटापचदौरा	1-लोहटापचदौरा				
8	भीमपुरा नं० 1	सेमरी	1-सेमरी				
9	भीमपुरा नं० 1	गजियापुर	1-गजियापुर				
10	भीमपुरा नं० 1	भुजैनी	1-भुजैनी				
11	भीमपुरा नं० 1	पचमा	1-पचमा				
12	भीमपुरा नं० 1	डफलपुरा	1-डफलपुरा				
13	भीमपुरा नं० 1	गोबिन्दपुरदुगौली	1-गोबिन्दपुरदुगौली				
	भीमपुरा नं० 1		2-गोपुर गोबरी				
14	भीमपुरा नं० 1	क्रिड़िहरापुर	1-क्रिड़िहरापुर				
15	भीमपुरा नं० 1	कुशहाब्राह्मण	1-कुशहाब्राह्मण				
	भीमपुरा नं० 1		2-रतनपुर				
16	भीमपुरा नं० 1	शाहपुर टिटिहा	1-शाहपुर टिटिहा				
	भीमपुरा नं० 1		2-बुधईपुर				
	भीमपुरा नं० 1		3-गउभोज				
	भीमपुरा नं० 1		4-सब्दलपुर				

आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ० प्र०शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 4315/स्था-2/(विविध पत्रावली)-2020 दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 द्वारा विकास खण्ड भीमपुरा नं० 1 को अक्रियाशील कर दिया गया है। तथा विकास खण्ड भीमपुरा नं० 1 में सम्मिलित (क्रमांक-1 से 32 तक की) 32 ग्राम पंचायतों को पूर्व विकास खण्ड सीयर में तथा विकास खण्ड भीमपुरा नं० 1 में सम्मिलित (क्रमांक-33 से 60 तक की) 28 ग्राम पंचायतों को पूर्व विकास खण्ड नगरा में सम्मिलित कर दिया गया है।

क्र० सं०	पूर्व स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	1	2	3	4
17	भीमपुरा नं० 1	जजौली	1-जजौली		<p>आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ० प्र०शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 4315/स्था-2/(विविध पत्रावली)-2020 दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 द्वारा विकास खण्ड भीमपुरा नं० 1 को अक्रियाशील कर दिया गया है। तथा विकास खण्ड भीमपुरा नं० 1 में सम्मिलित (क्रमांक-1 से 32 तक की) 32 ग्राम पंचायतों को पूर्व विकास खण्ड सीयर में तथा विकास खण्ड भीमपुरा नं० 1 में सम्मिलित (क्रमांक-33 से 60 तक की) 28 ग्राम पंचायतों को पूर्व विकास खण्ड नगरा में सम्मिलित कर दिया गया है।</p>		
	भीमपुरा नं० 1		2-हसनपुर				
	भीमपुरा नं० 1		3-हरपुर				
	भीमपुरा नं० 1		-				
	भीमपुरा नं० 1		-				
18	भीमपुरा नं० 1	सतुहाड़ी	1-सतुहाड़ी				
	भीमपुरा नं० 1		2-शोधनपुर				
	भीमपुरा नं० 1		3-भिटिहागोपालपुर				
19	भीमपुरा नं० 1	मझौवां अमावें	1-मझौवां				
	भीमपुरा नं० 1		2-अमावें				
20	भीमपुरा नं० 1	उधरन	1-उधरन				
	भीमपुरा नं० 1		2-गोपालपुर				
	भीमपुरा नं० 1		3-इस्माईलपुर उधरन				
21	भीमपुरा नं० 1	रामपुर	1-रामपुर				
22	भीमपुरा नं० 1	खूटा	1-खूटा				
	भीमपुरा नं० 1		2-बहोरवां				
	भीमपुरा नं० 1		3-देवधरिया ता० भिमपुरा				
	भीमपुरा नं० 1		4-सदनाडीह				
23	भीमपुरा नं० 1	कुचहरा	1-कुचहरा				
	भीमपुरा नं० 1		2-कुटया				
	भीमपुरा नं० 1		3-इनऊपुर				
	भीमपुरा नं० 1		4-अहिरपुर				
	भीमपुरा नं० 1		5-इस्माइलपुर घघिला				
24	भीमपुरा नं० 1	मुहम्मदपुर	1-मुहम्मदपुर				
25	भीमपुरा नं० 1	कुशहारसीदपुर	1-कुशहारसीदपुर				
	भीमपुरा नं० 1		-				
26	भीमपुरा नं० 1	इम्ब्राहिमपट्टी	1-इम्ब्राहिमपट्टी				
27	भीमपुरा नं० 1	सिउरीप्रेमरजा	1-सिउरीप्रेमरजा				
	भीमपुरा नं० 1		2-पहाड़पुर मु० इन्दरपुर				

क्र० सं०	पूर्व स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	1	2	3	4
	भीमपुरा नं० 1		3-देवधरिया मु० प्रेमराजसिंह				
28	भीमपुरा नं० 1	भिण्डलखनिसिंहा	1-भिण्डलखनिसिंहा				
29	भीमपुरा नं० 1	सिधौली	1-सिधौली				
30	भीमपुरा नं० 1	चकहब्सापुर	1-चकहब्सापुर				
31	भीमपुरा नं० 1	सैदपुरा	1-सैदपुरा				
32	भीमपुरा नं० 1	कन्धरापुर	1-कन्धरापुर				
	भीमपुरा नं० 1		2-गजियापुर				
	भीमपुरा नं० 1		3-नथना				
33	भीमपुरा नं० 1	भीमपुरा नं० 1	1-भीमपुरा नं० 1				
34	भीमपुरा नं० 1	राजारामपट्टी तासपुर	1-राजारामपट्टी तासपुर				
35	भीमपुरा नं० 1	गौरा	1-गौरा				
36	भीमपुरा नं० 1	बरेवा	1-बरेवा				
	भीमपुरा नं० 1		2-मुखलिसपुर				
37	भीमपुरा नं० 1	सिकरिया	1-सिकरिया				
38	भीमपुरा नं० 1	बभनौली	1-बभनौली				
	भीमपुरा नं० 1		2-बाहरपुर				
39	भीमपुरा नं० 1	कसौन्दर	1-कसौन्दर				
	भीमपुरा नं० 1		2-जमीन कसैली कसेसर				
40	भीमपुरा नं० 1	गोपालपुर ता० कसैलीकसेसर	1-गोपालपुर ता० कसैलीकसेसर				
41	भीमपुरा नं० 1	देवलबीर	1-देवलबीर				
	भीमपुरा नं० 1		2-ककरासोपट्टी				
42	भीमपुरा नं० 1	त्रिलोकमन्दा	1-त्रिलोकमन्दा				
	भीमपुरा नं० 1		2-झामपुर				
	भीमपुरा नं० 1		3-राधोमन्दा				
	भीमपुरा नं० 1		4-सिधौना				
43	भीमपुरा नं० 1	आरीपुर सरयां	1-आरीपुर सरयां				
44	भीमपुरा नं० 1	करौदी	1-करौदी				
45	भीमपुरा नं० 1	सिकन्दरापुर	1-सिकन्दरापुर				

आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ० प्र०शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 4315/स्था-2/(विविध पत्रावली)-2020 दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 द्वारा विकास खण्ड भीमपुरा नं० 1 को अक्रियाशील कर दिया गया है। तथा विकास खण्ड भीमपुरा नं० 1 में सम्मिलित (क्रमांक-1 से 32 तक की) 32 ग्राम पंचायतों को पूर्व विकास खण्ड सीयर में तथा विकास खण्ड भीमपुरा नं० 1 में सम्मिलित (क्रमांक-33 से 60 तक की) 28 ग्राम पंचायतों को पूर्व विकास खण्ड नगरा में सम्मिलित कर दिया गया है।

क्र० सं०	पूर्व स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	1	2	3	4
46	भीमपुरा नं० 1	बरवारंतीपट्टी	1-बरवारंतीपट्टी		<p>आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ० प्र०शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 4315/स्था-2/(विविध पत्रावली)-2020 दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 द्वारा विकास खण्ड भीमपुरा नं० 1 को अक्रियाशील कर दिया गया है। तथा विकास खण्ड भीमपुरा नं० 1 में सम्मिलित (क्रमांक-1 से 32 तक की) 32 ग्राम पंचायतों को पूर्व विकास खण्ड सीयर में तथा विकास खण्ड भीमपुरा नं० 1 में सम्मिलित (क्रमांक-33 से 60 तक की) 28 ग्राम पंचायतों को पूर्व विकास खण्ड नगरा में सम्मिलित कर दिया गया है।</p>		
	भीमपुरा नं० 1		2-नेवादा				
	भीमपुरा नं० 1		3-फरहालौकी				
47	भीमपुरा नं० 1	बरौली	1-बरौली				
48	भीमपुरा नं० 1	तिरनईमौलाराम	1-तिरनईमौलाराम				
	भीमपुरा नं० 1		2-बरनाग बसन्तपुर				
	भीमपुरा नं० 1		3-हैबतपुर				
49	भीमपुरा नं० 1	महरी	1-महरी				
50	भीमपुरा नं० 1	रामपुर	1-रामपुर				
	भीमपुरा नं० 1		2-बीबीपुर				
51	भीमपुरा नं० 1	असढिया	1-असढिया				
	भीमपुरा नं० 1		2- धर्मपुर				
52	भीमपुरा नं० 1	उस्करगजियापुर	1-उस्करगजियापुर				
	भीमपुरा नं० 1		2-हुडरहा				
53	भीमपुरा नं० 1	अंवरार्ई कला	1-अंवरार्ई कला				
54	भीमपुरा नं० 1	बराहमपुर	1-बराहमपुर				
	भीमपुरा नं० 1		2-दुर्गाईपट्टी				
	भीमपुरा नं० 1		3-रूदीपुर				
	भीमपुरा नं० 1		4-हब्सापुर				
55	भीमपुरा नं० 1	सवापार	1-सवापार				
	भीमपुरा नं० 1		2-राढीपुर (रूददी)				
56	भीमपुरा नं० 1	निगहुवां	1-निगहुवां				
	भीमपुरा नं० 1		2-चकमिश्रौली				
	भीमपुरा नं० 1		3-मिठनुआ				
	भीमपुरा नं० 1		4-रनउपुर				
57	भीमपुरा नं० 1	महराजपुर	1-महराजपुर				
58	भीमपुरा नं० 1	अवरार्ईखुर्द	1-अवरार्ईखुर्द				
59	भीमपुरा नं० 1	बाराडीहलवाईपट्टी	1-बाराडीहलवाईपट्टी				
60	भीमपुरा नं० 1	बराईच	1-बराईच				

क्र० सं०	पूर्व स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	1	2	3	4
				1	सीयर	चरौवा	1-चरौवा
					सीयर		2-कल्यानपुर
					सीयर		3-तिवारीपुर
				2	सीयर	विगह जमीन विगह	1-विगह जमीन विगह
					सीयर		2-फत्तापुर
				3	सीयर	छिटिकियां	1-छिटिकियां
					सीयर		2-शंकरपुर
					सीयर		3-दरियापुर
				4	सीयर	फरदहां उर्फ पूरा	1-फरदहां उर्फ पूरा
				5	सीयर	पतोई	1-पतोई
					सीयर		2-कलवारी
				6	सीयर	अहिरौली	1-अहिरौली
					सीयर		2-विशुनपुर डण्डा
				7	सीयर	लोहटापचदौरा	1-लोहटापचदौरा
				8	सीयर	सेमरी	1-सेमरी
				9	सीयर	गजियापुर	1-गजियापुर
				10	सीयर	भुजैनी	1-भुजैनी
				11	सीयर	पचमा	1-पचमा
				12	सीयर	डफलपुरा	1-डफलपुरा
				13	सीयर	गोबिन्दपुरदुगौली	1-गोबिन्दपुरदुगौली
					सीयर		2-गोपुर गोबरी
				14	सीयर	क्रिडिहरापुर	1-क्रिडिहरापुर
				15	सीयर	कुशहाब्राह्मण	1-कुशहाब्राह्मण
					सीयर		2-रतनपुर
				16	सीयर	शाहपुर टिटिहा	1-शाहपुर टिटिहा
					सीयर		2-बुधईपुर
					सीयर		3-गउभोज
					सीयर		4-सब्दलपुर
				17	सीयर	जजौली	1-जजौली
					सीयर		2-हसनपुर
					सीयर		3-हरपुर
					सीयर		-
					सीयर		-

क्र० सं०	पूर्व स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	1	2	3	4
				18	सीयर	सतुहाड़ी	1-सतुहाड़ी
					सीयर		2-शोधनपुर
					सीयर		3-भिटिहागोपालपुर
				19	सीयर	मझौवां अमावें	1-मझौवां
					सीयर		2-अमावें
				20	सीयर	उधरन	1-उधरन
					सीयर		2-गोपालपुर
					सीयर		3-इस्माईलपुर उधरन
				21	सीयर	रामपुर	1-रामपुर
				22	सीयर	खूटा	1-खूटा
					सीयर		2-बहोरवां
					सीयर		3-देवधरिया ता० भिमपुरा
					सीयर		4-सदनाडीह
				23	सीयर	कुचहरा	1-कुचहरा
					सीयर		2-कुटया
					सीयर		3-इनऊपुर
					सीयर		4-अहिरपुर
					सीयर		5-इस्माइलपुर घघिला
				24	सीयर	मुहम्मदपुर	1-मुहम्मदपुर
				25	सीयर	कुशहारसीदपुर	1-कुशहारसीदपुर
					सीयर		-
				26	सीयर	इम्ब्राहिमपट्टी	1-इम्ब्राहिमपट्टी
				27	सीयर	सिउरीप्रेमरजा	1-सिउरीप्रेमरजा
					सीयर		2-पहाड़पुर मु० इन्दरपुर
					सीयर		3-देवधरिया मु० प्रेमराजसिंह
				28	सीयर	भिण्डलखनिसिंहा	1-भिण्डलखनिसिंहा
				29	सीयर	सिधौली	1-सिधौली
				30	सीयर	चकहब्सापुर	1. चकहब्सापुर

क्र० सं०	पूर्व स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	1	2	3	4
				31	सीयर	सैदपुरा	1-सैदपुरा
				32	सीयर	कन्धरापुर	1-कन्धरापुर
					सीयर		2-गजियापुर
					सीयर		3-नथना
33	सीयर	तेन्दुआ	1-तेन्दुआ	33	सीयर	तेन्दुआ	1-तेन्दुआ
34	सीयर	कुशहाभाड़	1-कुशहाभाड़	34	सीयर	कुशहाभाड़	1-कुशहाभाड़
	सीयर		2-सीयर		सीयर		2-सीयर
35	सीयर	भदौरा तरछापार	1-भदौरा तरछापार	35	सीयर	भदौरा तरछापार	1-भदौरा तरछापार
36	सीयर	मझौंवा (सीयर)	1-मझौंवां	36	सीयर	मझौंवा (सीयर)	1-मझौंवां
	सीयर		2-चकिया		सीयर		2-चकिया
37	सीयर	बिदुआ	1-बिदुआ	37	सीयर	बिदुआ	1-बिदुआ
38	सीयर	कुण्डैल नियामतअली	1-कुण्डैल नियामतअली	38	सीयर	कुण्डैल नियामतअली	1-कुण्डैल नियामतअली
	सीयर		2-रामपुर चन्दायर		सीयर		2-रामपुर चन्दायर
39	सीयर	पतनारी	1-पतनारी	39	सीयर	पतनारी	1-पतनारी
40	सीयर	सोनाडीह	1-सोनाडीह	40	सीयर	सोनाडीह	1-सोनाडीह
41	सीयर	पड़री	1-पड़री	41	सीयर	पड़री	1-पड़री
	सीयर		2-तेन्दुहारी		सीयर		2-तेन्दुहारी
42	सीयर	अतरौल चक मिलकान	1-अतरौल चक मिलकान	42	सीयर	अतरौल चक मिलकान	1-अतरौल चक मिलकान
	सीयर		2-सिकरौल चन्द्रौल		सीयर		2-सिकरौल चन्द्रौल
43	सीयर	इन्दौली जमीन इन्दौली	1-इन्दौली जमीन इन्दौली	43	सीयर	इन्दौली जमीन इन्दौली	1-इन्दौली जमीन इन्दौली
	सीयर		2-चक मिलकान		सीयर		2-चक मिलकान
44	सीयर	भिण्डकुण्ड	1-भिण्डकुण्ड	44	सीयर	भिण्डकुण्ड	1-भिण्डकुण्ड
45	सीयर	गौरीताल घोसा	1-गौरीताल घोसा	45	सीयर	गौरीताल घोसा	1-गौरीताल घोसा
46	सीयर	दोध	1-दोध	46	सीयर	दोध	1-दोध
	सीयर		2-भगवानपुर		सीयर		2-भगवानपुर
47	सीयर	खैराखास	1-खैराखास	47	सीयर	खैराखास	1-खैराखास
48	सीयर	टंगुनिया	1-टंगुनिया	48	सीयर	टंगुनिया	1-टंगुनिया
49	सीयर	चन्दायरबलीपुर	1-चन्दायरबलीपुर	49	सीयर	चन्दायरबलीपुर	1-चन्दायरबलीपुर
50	सीयर	चैनपुर गुलौरा	1-चैनपुर गुलौरा	50	सीयर	चैनपुर गुलौरा	1-चैनपुर गुलौरा



क्र० सं०	पूर्व स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	1	2	3	4
	सीयर		2-अराजी गुलौरा		सीयर		2-अराजी गुलौरा
	सीयर		3-दीयरासरकार		सीयर		3-दीयरासरकार
51	सीयर	बुद्धिपुर	1-बुद्धिपुर	51	सीयर	बुद्धिपुर	1-बुद्धिपुर
	सीयर		2-चन्दायरकला		सीयर		2-चन्दायरकला
	सीयर		3-फतेहपुर		सीयर		3-फतेहपुर
52	सीयर	उभावं	1-उभावं	52	सीयर	उभावं	1-उभावं
	सीयर		2-मझवलिया		सीयर		2-मझवलिया
	सीयर		3-चन्दनपट्टी निर्भयपुर		सीयर		3-चन्दनपट्टी निर्भयपुर
	सीयर		4-साहुनपुर		सीयर		4-साहुनपुर
	सीयर		5-कोरवाँ बैजनाथी		सीयर		5-कोरवाँ बैजनाथी
53	सीयर	तुर्तीपार	1-तुर्तीपार	53	सीयर	तुर्तीपार	1-तुर्तीपार
54	सीयर	बहोरवांखुर्द	1-बहोरवांखुर्द	54	सीयर	बहोरवांखुर्द	1-बहोरवांखुर्द
	सीयर		2-कुण्डैलशाह		सीयर		2-कुण्डैलशाह
55	सीयर	मुबारकपुर	1-मुबारकपुर	55	सीयर	मुबारकपुर	1-मुबारकपुर
56	सीयर	बांसपार बहोरवां	1-बांसपार बहोरवां	56	सीयर	बांसपार बहोरवां	1-बांसपार बहोरवां
57	सीयर	तिरनई खुर्द	1-तिरनई खुर्द	57	सीयर	तिरनई खुर्द	1-तिरनई खुर्द
58	सीयर	ककरासो	1-ककरासो	58	सीयर	ककरासो	1-ककरासो
	सीयर		2-करीमगंज		सीयर		2-करीमगंज
59	सीयर	बेल्थराबाजार	1-बेल्थराबाजार	59	सीयर	बेल्थराबाजार	1-बेल्थराबाजार
60	सीयर	चौकिया	1-चौकिया	60	सीयर	चौकिया	1-चौकिया
61	सीयर	हल्दीरामपुर	1-हल्दीरामपुर	61	सीयर	हल्दीरामपुर	1-हल्दीरामपुर
62	सीयर	पिपरौली	1-पिपरौली	62	सीयर	पिपरौली	1-पिपरौली
63	सीयर	चन्दाडीह	1-चन्दाडीह	63	सीयर	चन्दाडीह	1-चन्दाडीह
	सीयर		2-लखवलिया		सीयर		2-लखवलिया
64	सीयर	महेन्दुआ	1-महेन्दुआ	64	सीयर	महेन्दुआ	1-महेन्दुआ
	सीयर		2-चकमेहरअली उर्फ मउरहां		सीयर		2-चकमेहरअली उर्फ मउरहां
65	सीयर	कुर्हातेतरा	1-कुर्हातेतरा	65	सीयर	कुर्हातेतरा	1-कुर्हातेतरा
66	सीयर	कड़सर	1-कड़सर	66	सीयर	कड़सर	1-कड़सर

क्र० सं०	पूर्व स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	1	2	3	4
67	सीयर	बहुताचकउपाध्याय	1-बहुताचकउपाध्याय	67	सीयर	बहुताचकउपाध्याय	1-बहुताचकउपाध्याय
	सीयर		2-चैनपुर ता0 परशुरामपुर		सीयर		2-चैनपुर ता0 परशुरामपुर
68	सीयर	रछौली	1-रछौली	68	सीयर	रछौली	1-रछौली
	सीयर		2-बभनौली		सीयर		2-बभनौली
	सीयर		3-रामपुरदेवकली		सीयर		3-रामपुरदेवकली
	सीयर		4-विशुनपुरा		सीयर		4-विशुनपुरा
69	सीयर	तेलमाजमालुद्दीन-पुर	1-तेलमाजमालुद्दीन-पुर	69	सीयर	तेलमाजमालुद्दीन-पुर	1-तेलमाजमालुद्दीन-पुर
70	सीयर	मोलनापुर	1-मोलनापुर	70	सीयर	मोलनापुर	1-मोलनापुर
	सीयर		2-बरैठा		सीयर		2-बरैठा
71	सीयर	तेन्दुआपट्टी फरसाटार	1-तेन्दुआपट्टी (फरसाटार)	71	सीयर	तेन्दुआपट्टी फरसाटार	1-तेन्दुआपट्टी (फरसाटार)
	सीयर		2-होलपुर		सीयर		2-होलपुर
	सीयर		3-जमीनतेन्दुआ		सीयर		3-जमीनतेन्दुआ
72	सीयर	पड़सरान-दौलीताजपुर	1-पड़सरान-दौलीताजपुर	72	सीयर	पड़सरान-दौलीताजपुर	1-पड़सरान-दौलीताजपुर
73	सीयर	रामपुर चन्देला	1-रामपुर चन्देला	73	सीयर	रामपुर चन्देला	1-रामपुर चन्देला
	सीयर		2-उस्मानपुर		सीयर		2-उस्मानपुर
74	सीयर	शाहपुर अफगां	1-शाहपुर अफगां	74	सीयर	शाहपुर अफगां	1-शाहपुर अफगां
	सीयर		2-भाटपुर		सीयर		2-भाटपुर
	सीयर		3-कुंवरपुर		सीयर		3-कुंवरपुर
75	सीयर	तिरनई खिजिरपुर	1-तिरनई खिजिरपुर	75	सीयर	तिरनई खिजिरपुर	1-तिरनई खिजिरपुर
	सीयर		2-बिड़हरा		सीयर		2-बिड़हरा
76	सीयर	फरसाटार	1-फरसाटार	76	सीयर	फरसाटार	1-फरसाटार
77	सीयर	भुवारी	1-भुवारी	77	सीयर	भुवारी	1-भुवारी
	सीयर		-		सीयर		-
78	सीयर	मिश्रौली	1-मिश्रौली	78	सीयर	मिश्रौली	1-मिश्रौली
79	सीयर	भिटौरा	1-भिटौरा	79	सीयर	भिटौरा	1-भिटौरा
	सीयर		2-भदहर		सीयर		2-भदहर
	सीयर		3-गंगरूपुर		सीयर		3-गंगरूपुर
	सीयर		4-चकसेखानी		सीयर		4-चकसेखानी
	सीयर		5-मसांव		सीयर		5-मसांव

क्र० सं०	पूर्व स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	1	2	3	4
80	सीयर	शेखपुर	1-शेखपुर	80	सीयर	शेखपुर	1-शेखपुर
	सीयर		2-भिखमपुर		सीयर		2-भिखमपुर
	सीयर		3-बीरभानपुर		सीयर		3-बीरभानपुर
	सीयर		4-जाहीदपुर		सीयर		4-जाहीदपुर
	सीयर		5-कुपत		सीयर		5-कुपत
81	सीयर	पलिया	1-पलिया	81	सीयर	पलिया	1-पलिया
82	सीयर	अवायां	1-अवायां	82	सीयर	अवायां	1-अवायां
	सीयर		2-डिहवाँ		सीयर		2-डिहवाँ
83	सीयर	सिसयण्डकला	1-सिसयण्डकला	83	सीयर	सिसयण्डकला	1-सिसयण्डकला
	सीयर		2-शिवपुर मठिया		सीयर		2-शिवपुर मठिया
84	सीयर	शमसुद्दीनपुर	1-शमसुद्दीनपुर	84	सीयर	शमसुद्दीनपुर	1-शमसुद्दीनपुर
85	सीयर	पशुहारी	1-पशुहारी	85	सीयर	पशुहारी	1-पशुहारी
86	सीयर	रौसड़ा	1-रौसड़ा	86	सीयर	रौसड़ा	1-रौसड़ा
	सीयर		2-भानपुर		सीयर		2-भानपुर
	सीयर		3-आदमपुर		सीयर		3-आदमपुर
87	सीयर	राजपुर	1-राजपुर	87	सीयर	राजपुर	1-राजपुर
	सीयर		2-नुरपुर		सीयर		2-नुरपुर
88	सीयर	जमीन सिसयण्ड	1-जमीन सिसयण्ड	88	सीयर	जमीन सिसयण्ड	1-जमीन सिसयण्ड
	सीयर		2-चकमहमूद		सीयर		2-चकमहमूद
	सीयर		3-फरीदपुर		सीयर		3-फरीदपुर
	सीयर		4-सलेमपुर		सीयर		4-सलेमपुर
89	सीयर	बनकरासैयदबुखारा	1-बनकरासैयदबुखारा	89	सीयर	बनकरासैयदबुखारा	1-बनकरासैयदबुखारा
	सीयर		2-मलेरी		सीयर		2-मलेरी
90	सीयर	पहाड़पुर	1-पहाड़पुर	90	सीयर	पहाड़पुर	1-पहाड़पुर
	सीयर		2-असरूपुर		सीयर		2-असरूपुर
91	सीयर	ससनाबहादुरपुर	1-ससनाबहादुरपुर	91	सीयर	ससनाबहादुरपुर	1-ससनाबहादुरपुर
92	सीयर	अखोप	1-अखोप	92	सीयर	अखोप	1-अखोप
93	सीयर	सरयाडीहूभगत	1-सरयाडीहूभगत	93	सीयर	सरयाडीहूभगत	1-सरयाडीहूभगत
	सीयर		2-मामपुर महदेवा		सीयर		2-मामपुर महदेवा

क्र० सं०	पूर्व स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	1	2	3	4
94	सीयर	मलेरा	1-मलेरा	94	सीयर	मलेरा	1-मलेरा
	सीयर		2-बारा		सीयर		2-बारा
	सीयर		3-सुम्हा		सीयर		3-सुम्हा
				1	नगरा	भीमपुरा नं० 1	1-भीमपुरा नं० 1
				2	नगरा	राजारामपट्टी तासपुर	1-राजारामपट्टी तासपुर
				3	नगरा	गौरा	1-गौरा
				4	नगरा	बरेवा	1-बरेवा
					नगरा		2-मुखलिसपुर
				5	नगरा	सिकरिया	1-सिकरिया
				6	नगरा	बभनौली	1-बभनौली
					नगरा		2-बाहरपुर
				7	नगरा	कसौन्दर	1-कसौन्दर
					नगरा		2-जमीन कसैली कसेसर
				8	नगरा	गोपालपुर ता०कसैलीकसेसर	1-गोपालपुर ता० कसैलीकसेसर
				9	नगरा	देवलबीर	1-देवलबीर
					नगरा		2-ककरासोपट्टी
				10	नगरा	त्रिलोकमन्दा	1-त्रिलोकमन्दा
					नगरा		2-झामपुर
					नगरा		3-राधोमन्दा
					नगरा		4-सिधौना
				11	नगरा	आरीपुर सरयां	1-आरीपुर सरयां
				12	नगरा	करौदी	1-करौदी
				13	नगरा	सिकन्दरापुर	1-सिकन्दरापुर
				14	नगरा	बरवारत्तीपट्टी	1-बरवारत्तीपट्टी
					नगरा		2-नेवादा
					नगरा		3-फरहालौकी
				15	नगरा	बरौली	1-बरौली
				16	नगरा	तिरनईमौलाराम	1-तिरनईमौलाराम
					नगरा		2-बरनाग बसन्तपुर
					नगरा		3-हैबतपुर

क्र० सं०	पूर्व स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	1	2	3	4
				17	नगरा	महरी	1-महरी
				18	नगरा	रामपुर	1-रामपुर
					नगरा		2-बीबीपुर
				19	नगरा	असढिया	1-असढिया
					नगरा		2- धर्मपुर
				20	नगरा	उस्करगजियापुर	1-उस्करगजियापुर
					नगरा		2-हुडरहा
				21	नगरा	अंवराई कला	1-अंवराई कला
				22	नगरा	बराहमपुर	1-बराहमपुर
					नगरा		2-दुगाईपट्टी
					नगरा		3-रूदीपुर
					नगरा		4-हब्सापुर
				23	नगरा	सवापार	1-सवापार
					नगरा		2-राढीपुर (रूददी)
				24	नगरा	निगहुवां	1-निगहुवां
					नगरा		2-चकमिश्रौली
					नगरा		3-मिठनुआ
					नगरा		4-रनउपुर
				25	नगरा	महराजपुर	1-महराजपुर
				26	नगरा	अवराईखुर्द	1-अवराईखुर्द
				27	नगरा	बाराडीहलवाईपट्टी	1-बाराडीहलवाईपट्टी
				28	नगरा	बराईच	1-बराईच
29	नगरा	लहसनी	1-लहसनी	29	नगरा	लहसनी	1-लहसनी
30	नगरा	परसियारूपपुर	1-परसियारूपपुर	30	नगरा	परसियारूपपुर	1-परसियारूपपुर
	नगरा		2-मुहम्मदपुर जपतीमाफी		नगरा		2-मुहम्मदपुर जपतीमाफी
	नगरा		3-देउरिया		नगरा		3-देउरिया
31	नगरा	सिकरहटा	1-सिकरहटा	31	नगरा	सिकरहटा	1-सिकरहटा
32	नगरा	परशुरामपुर	1-परशुरामपुर	32	नगरा	परशुरामपुर	1-परशुरामपुर
	नगरा		2-बैरही		नगरा		2-बैरही
33	नगरा	इन्दासो	1-इन्दासो	33	नगरा	इन्दासो	1-इन्दासो

क्र० सं०	पूर्व स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	1	2	3	4
34	नगरा	विसरुफ	1-विसरुफ	34	नगरा	विसरुफ	1-विसरुफ
	नगरा		2-सिहोरीडीह		नगरा		2-सिहोरीडीह
	नगरा		3-राजारामपट्टी		नगरा		3-राजारामपट्टी
35	नगरा	मलपहरसेनपुर	1-मलपहरसेनपुर	35	नगरा	मलपहरसेनपुर	1-मलपहरसेनपुर
	नगरा		2-गजाधरपुर		नगरा		2-गजाधरपुर
36	नगरा	निकासी	1-निकासी	36	नगरा	निकासी	1-निकासी
37	नगरा	देवढिया	1-देवढिया	37	नगरा	देवढिया	1-देवढिया
	नगरा		2-सरायअर्क 3-एवती		नगरा		2-सरायअर्क 3-एवती
38	नगरा	तियराहैदरपुर	1-तियराहैदरपुर	38	नगरा	तियराहैदरपुर	1-तियराहैदरपुर
39	नगरा	अतरौली करमौता	1-अतरौली करमौता	39	नगरा	अतरौली करमौता	1-अतरौली करमौता
	नगरा		2-तरगौली		नगरा		2-तरगौली
40	नगरा	भीमपुरा नं० 2	1-भीमपुरा नं० 2	40	नगरा	भीमपुरा नं० 2	1-भीमपुरा नं० 2
	नगरा		2-रनउपुर		नगरा		2-रनउपुर
41	नगरा	कोढागालिबट्टी	1-कोढागालिबट्टी	41	नगरा	कोढागालिबट्टी	1-कोढागालिबट्टी
	नगरा		2-चादपुर		नगरा		2-चादपुर
42	नगरा	सरयागुलाबराय	1-सरयागुलाबराय	42	नगरा	सरयागुलाबराय	1-सरयागुलाबराय
	नगरा		2-हजिया रामपुर		नगरा		2-हजिया रामपुर
	नगरा		3-ढोढवा		नगरा		3-ढोढवा
	नगरा		4-रामपुर हजिया		नगरा		4-रामपुर हजिया
43	नगरा	बिहराहरपुर	1-बिहराहरपुर	43	नगरा	बिहराहरपुर	1-बिहराहरपुर
	नगरा		2-तितलौकिया उर्फ किशोरगंज		नगरा		2-तितलौकिया उर्फ किशोरगंज
44	नगरा	करनी	1-करनी	44	नगरा	करनी	1-करनी
	नगरा		2-पुरुषोत्तमपुर		नगरा		2-पुरुषोत्तमपुर
	नगरा		3-सद्दोपुर		नगरा		3-सद्दोपुर
45	नगरा	इन्द्रौलीमलकौली	1-इन्द्रौलीमलकौली	45	नगरा	इन्द्रौलीमलकौली	1-इन्द्रौलीमलकौली
46	नगरा	करीमपुर	1-करीमपुर	46	नगरा	करीमपुर	1-करीमपुर
47	नगरा	तुर्कीदौलतपुर	1-तुर्कीदौलतपुर	47	नगरा	तुर्कीदौलतपुर	1-तुर्कीदौलतपुर
	नगरा		2-नरायनपुर		नगरा		2-नरायनपुर
48	नगरा	विशुनपुरा	1-विशुनपुरा	48	नगरा	विशुनपुरा	1-विशुनपुरा
49	नगरा	ननौरा	1-ननौरा	49	नगरा	ननौरा	1-ननौरा
	नगरा		2-अहिरौली		नगरा		2-अहिरौली

क्र० सं०	पूर्व स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	1	2	3	4
50	नगरा	कमरौली	1-कमरौली	50	नगरा	कमरौली	1-कमरौली
	नगरा		2-छितौनी		नगरा		2-छितौनी
	नगरा		3-ढेकनपुर		नगरा		3-ढेकनपुर
	नगरा		4-निछुआडीह		नगरा		4-निछुआडीह
	नगरा		5-डोली		नगरा		5-डोली
	नगरा		6-लेखमनपुर		नगरा		6-लेखमनपुर
	नगरा		7-बढवलिया		नगरा		7-बढवलिया
	नगरा		8-विलासपुर		नगरा		8-विलासपुर
	नगरा		9-डुलेसर		नगरा		9-डुलेसर
51	नगरा	छितौना	1-छितौना	51	नगरा	छितौना	1-छितौना
	नगरा		2-हबसापुर		नगरा		2-हबसापुर
	नगरा		3-भोजपुर		नगरा		3-भोजपुर
52	नगरा	पडसरा जूडन	1-पडसरा जूडन	52	नगरा	पडसरा जूडन	1-पडसरा जूडन
53	नगरा	जमुआंव खामपुर	1-जमुआंव खामपुर	53	नगरा	जमुआंव खामपुर	1-जमुआंव खामपुर
54	नगरा	मालीपुर	1-मालीपुर	54	नगरा	मालीपुर	1-मालीपुर
	नगरा		2-सुरुजीपुर		नगरा		2-सुरुजीपुर
	नगरा		3-नौरंगिया		नगरा		3-नौरंगिया
55	नगरा	कैथीखतीवपुर	1-कैथीखतीवपुर	55	नगरा	कैथीखतीवपुर	1-कैथीखतीवपुर
	नगरा		2-मखदुमपुर		नगरा		2-मखदुमपुर
	नगरा		3-भुवराखुट		नगरा		3-भुवराखुट
56	नगरा	खन्दवा	1-खन्दवा	56	नगरा	खन्दवा	1-खन्दवा
	नगरा		2-अदलिसपुर		नगरा		2-अदलिसपुर
57	नगरा	गौवापार	1-गौवापार	57	नगरा	गौवापार	1-गौवापार
	नगरा		2-विशुनपुर डण्डा		नगरा		2-विशुनपुर डण्डा
58	नगरा	सुपापाली	1-सुपापाली	58	नगरा	सुपापाली	1-सुपापाली
59	नगरा	ताड़ीबड़ागांव	1-ताड़ीबड़ागांव	59	नगरा	ताड़ीबड़ागांव	1-ताड़ीबड़ागांव
60	नगरा	पालचन्द्रहा	1-पालचन्द्रहा	60	नगरा	पालचन्द्रहा	1-पालचन्द्रहा
	नगरा		2-वीरचन्द्रहा		नगरा		2-वीरचन्द्रहा
61	नगरा	अब्दुलपुर मदारी	1-अब्दुलपुर मदारी	61	नगरा	अब्दुलपुर मदारी	1-अब्दुलपुर मदारी

क्र० सं०	पूर्व स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	1	2	3	4
62	नगरा	दिलमन मधुकीपुर	1-दिलमन मधुकीपुर	62	नगरा	दिलमन मधुकीपुर	1-दिलमन मधुकीपुर
	नगरा		2-अब्बासपुर		नगरा		2-अब्बासपुर
	नगरा		3-शंकरपुर मझौवा		नगरा		3-शंकरपुर मझौवा
	नगरा		4-बभनौली		नगरा		4-बभनौली
63	नगरा	रूपवारभगवानपुर	1-रूपवारभगवानपुर	63	नगरा	रूपवारभगवानपुर	1-रूपवारभगवानपुर
64	नगरा	मसुरिया	1-मसुरिया	64	नगरा	मसुरिया	1-मसुरिया
65	नगरा	कोदई	1-कोदई	65	नगरा	कोदई	1-कोदई
66	नगरा	रघुनाथपुर	1-रघुनाथपुर	66	नगरा	रघुनाथपुर	1-रघुनाथपुर
67	नगरा	सोनापाली	1-सोनापाली	67	नगरा	सोनापाली	1-सोनापाली
	नगरा		2-पाण्डेयपुर		नगरा		2-पाण्डेयपुर
68	नगरा	खरूआंव	1-खरूआंव	68	नगरा	खरूआंव	1-खरूआंव
69	नगरा	सिसवारकला	1-सिसवारकला	69	नगरा	सिसवारकला	1-सिसवारकला
70	नगरा	रेकुआनसीरपुर	1-रेकुआनसीरपुर	70	नगरा	रेकुआनसीरपुर	1-रेकुआनसीरपुर
71	नगरा	सुल्तानपुर	1-सुल्तानपुर	71	नगरा	सुल्तानपुर	1-सुल्तानपुर
72	नगरा	खारी	1-खारी	72	नगरा	खारी	1-खारी
	नगरा		2-विश्वनाथपुर		नगरा		2-विश्वनाथपुर
73	नगरा	उरैनी	1-उरैनी	73	नगरा	उरैनी	1-उरैनी
74	नगरा	खैरानिस्फी	1-खैरानिस्फी	74	नगरा	खैरानिस्फी	1-खैरानिस्फी
	नगरा		2-सोनाड़ी		नगरा		2-सोनाड़ी
75	नगरा	खनवरनवादा	1-खनवरनवादा	75	नगरा	खनवरनवादा	1-खनवरनवादा
	नगरा		2-आराजी इग्लिश		नगरा		2-आराजी इग्लिश
76	नगरा	गोठवां	1-गोठवां	76	नगरा	गोठवां	1-गोठवां
77	नगरा	डिहवां	1-डिहवां	77	नगरा	डिहवां	1-डिहवां
78	नगरा	गजियापुर ता० हरपुर	1-गजियापुर ता० हरपुर	78	नगरा	गजियापुर ता० हरपुर	1-गजियापुर ता० हरपुर
	नगरा		2-छित्तूपाली		नगरा		2-छित्तूपाली
79	नगरा	पकड़ीहरखबसन्त	1-पकड़ीहरखबसन्त	79	नगरा	पकड़ीहरखबसन्त	1-पकड़ीहरखबसन्त
	नगरा		2-पहेसर		नगरा		2-पहेसर
	नगरा		3-सरया ता० गोठवा		नगरा		3-सरया ता० गोठवा
	नगरा		4-सरयाविरभान		नगरा		4-सरयाविरभान



क्र० सं०	पूर्व स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	1	2	3	4
80	नगरा	चकराकोल्हुआ	1-चकराकोल्हुआ	80	नगरा	चकराकोल्हुआ	1-चकराकोल्हुआ
	नगरा		2-चकपंडित		नगरा		2-चकपंडित
	नगरा		3-मुबारकपुर		नगरा		3-मुबारकपुर
81	नगरा	डण्डारी लखूसराय	1-डण्डारी लखूसराय	81	नगरा	डण्डारी लखूसराय	1-डण्डारी लखूसराय
	नगरा		2-अधारीपट्टी		नगरा		2-अधारीपट्टी
82	नगरा	वरसड़ासलेमपुर	1-वरसड़ासलेमपुर	82	नगरा	वरसड़ासलेमपुर	1-वरसड़ासलेमपुर
	नगरा		2-जगदीशपुर		नगरा		2-जगदीशपुर
	नगरा		-		नगरा		-
83	नगरा	चांडीसरायसंभल	1-चांडीसरायसंभल	83	नगरा	चांडीसरायसंभल	1-चांडीसरायसंभल
84	नगरा	नरहीं	1-नरहीं	84	नगरा	नरहीं	1-नरहीं
	नगरा		2-मेहराव		नगरा		2-मेहराव
	नगरा		3-सोनवानी		नगरा		3-सोनवानी
85	नगरा	जूड़नपुर	1-जूड़नपुर	85	नगरा	जूड़नपुर	1-जूड़नपुर
86	नगरा	जेठवार याकूबपुर	1-जेठवार याकूबपुर	86	नगरा	जेठवार याकूबपुर	1-जेठवार याकूबपुर
87	नगरा	इनामीपुर	1-इनामीपुर	87	नगरा	इनामीपुर	1-इनामीपुर
88	नगरा	ककरी	1-ककरी	88	नगरा	ककरी	1-ककरी
	नगरा		2-खालिसपुर		नगरा		2-खालिसपुर
89	नगरा	देवरिया	1-देवरिया	89	नगरा	देवरिया	1-देवरिया
	नगरा		2-गौरीटार		नगरा		2-गौरीटार
90	नगरा	ढेकवारी	1-ढेकवारी	90	नगरा	ढेकवारी	1-ढेकवारी
91	नगरा	भिटकुना	1-भिटकुना	91	नगरा	भिटकुना	1-भिटकुना
	नगरा		2-डुमाडार		नगरा		2-डुमाडार
92	नगरा	कोठिया	1-कोठिया	92	नगरा	कोठिया	1-कोठिया
93	नगरा	खेमपुर	1-खेमपुर	93	नगरा	खेमपुर	1-खेमपुर
94	नगरा	पड़री	1-पड़री	94	नगरा	पड़री	1-पड़री
	नगरा		2-खरहरी		नगरा		2-खरहरी
	नगरा		3-गोठवां		नगरा		3-गोठवां

क्र० सं०	पूर्व स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	1	2	3	4
95	नगरा	नगरा	1-नगरा		नगर विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 2859/9-1-2018-7टी0ए0-2014, लखनऊ, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के क्रम में क्रमांक-95, 96 एवं 97 पर अंकित ग्राम पंचायत क्रमशः नगरा, चचयाँ एवं इसमें सम्मिलित राजस्व ग्राम कोटवारीपुर तथा ग्राम पंचायत भण्डारी एवं इसमें सम्मिलित राजस्व ग्राम सरायचावट नगर पंचायत नगरा में पूर्णरूप से सम्मिलित हो गयीं हैं।		
96	नगरा	चचयाँ	1-चचयाँ				
	नगरा		2-कोटवारीपुर				
97	नगरा	भण्डारी	1-भण्डारी				
	नगरा		2-सरायचावट				

उपर्युक्तानुसार पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 4/58/2017-4/145(बलिया)-2014, दिनांक 3 मार्च, 2017 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

आज्ञा से,  
किंजल सिंह,  
निदेशक,  
पंचायती राज, उ० प्र०।